



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 11—सितम्बर 17, 2010 (भाद्रपद 20, 1932)
No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 11—SEPTEMBER 17, 2010 (BHADRA 20, 1932)
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110101, दिनांक 25 अगस्त 2010

सं. ए-22012/004/2010-पीएमई--राष्ट्रपति, श्रीमती मनीषा वर्मा, आईएस (एमएच : 93) को दिनांक 10 अगस्त, 2010 (पूर्वाह्न) से 7 जून, 2013 तक अथवा अगले आदेश होने तक, इसमें से जो भी पहले हो, रु. 8,700/- के ग्रेड-पे के साथ पे-बैंड-4 (रुपये 37,400—67,000/-) में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् में प्रतिनियुक्ति के आधार पर निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. सलिल कुमार, अवर सचिव

सं. ए-22012/004/2010-पीएमई--राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अवर सचिव श्री एस. रवि को दिनांक 16 जुलाई, 2010 (अपराह्न) से रु. 6,600/- के ग्रेड-पे के साथ पे-बैंड-3 (रुपये 15,600—39,100/-) में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् में प्रतिनियुक्ति के आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. सलिल कुमार, अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 अगस्त 2010

सं. आरएस/42/3/2010/78-कार्मिक--कुमारी भारती तिवारी, निदेशक (मीडिया) ने संसदीय विकास केन्द्र (पी.डी.सी.), इराक में प्रतिनियुक्ति से लौटने पर 1 जुलाई, 2010 के पूर्वाह्न से इस सचिवालय में अपना कार्यभार पुनः संभाल लिया है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 7 जुलाई 2010

सं. एफ.41/17/जीएन-6441/एएन-I/2010--श्रीमती रितु जैन, जो वर्तमान में प्रतिनियुक्ति आधार पर संरक्षक के रूप में कार्यरत हैं, को 07.07.2010 के अपराह्न से उनकी सेवाओं से मुक्त किया जाता है और तत्पश्चात् उनकी सेवाएं उनके मूल विभाग अर्थात् इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली को वापस सौंपी जाती हैं।

श्रीमती रितु जैन की लोक सभा सचिवालय में वर्तमान प्रतिनियुक्ति अवधि 01.06.2010 से 07.07.2010 तक बढ़ाई गई मानी जाएगी।

पी. के. गोवर, संयुक्त सचिव

दिनांक 22 जुलाई 2010

सं. पीएफ. 4225-आर(3)/एएन-1/जीएन-6442/2010--इस सचिवालय की दिनांक 7 अगस्त, 2006 की अधिसूचना सं. जी एन-5707 के क्रम में श्री यू. अंजन कुमार, प्रणाली विश्लेषक (सिस्टम एनालिस्ट), कर्नाटक विधान सभा सचिवालय, बंगलौर, कर्नाटक, जो वर्तमान में इस सचिवालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर प्रणाली विश्लेषक के रूप में कार्यरत हैं, की सेवाएं 4 अगस्त, 2009 से 3 अगस्त, 2010 तक और एक वर्ष के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती हैं।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

दिनांक 13 जुलाई 2010

सं. पीएफ. 1483-आर(3)/जीएन-6443/एएन-1/2010--श्रीमती कंचलजीत देओल, आई पी एस (ए जी एम यू : 77), जो वर्तमान में प्रतिनियुक्ति आधार पर अपर सचिव (सुरक्षा) के रूप में कार्यरत हैं, को 13 जुलाई, 2010 के अपराह्न से उनकी सेवाओं से मुक्त किया जाता है और तत्पश्चात् उनकी सेवाएं उनके संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण अर्थात् गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को वापस सौंपी जाती हैं।

श्रीमती कंचलजीत देओल की लोक सभा सचिवालय में वर्तमान प्रतिनियुक्ति-अवधि 25 अक्टूबर, 2008 से 13 जुलाई 2010 के अपराह्न तक बढ़ाई गई मानी जाएगी।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

सं. एफ. 15/16/2010/जीएन-6444/एएन-1--अध्यक्ष महोदया, श्री पी. आर. मीणा, आईपीएस (ए जी एम यू : 80) को लोक सभा सचिवालय में 37,400—67,000/- रुपये (पीबी-4) + ग्रेड पे 10,000/- रु. के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति आधार पर संयुक्त सचिव (सुरक्षा) के रूप में 13 जुलाई, 2010 के पूर्वाह्न से 31 अगस्त, 2012 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करती हैं।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

दिनांक 14 जुलाई 2010

सं. एफ. 15/13/2010/जीएन-6445/एएन-1--श्री आर. सुरेन्द्र नायर, जिन्हें लोक लेखा समिति के सभापति के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, रसायन और उर्वरक संबंधी समिति के सभापति (श्री गोपीनाथ मुंडे) के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में सेवाधृति के आधार पर तथा रसायन और उर्वरक संबंधी समिति के वर्तमान सभापति के प्रसाद पर्यन्त अथवा उनके कार्यकाल के साथ सह-विस्तारी आधार पर 7 मई, 2010 से कार्य करते रहेंगे।

उनका पदनाम रसायन और उर्वरक संबंधी समिति के सभापति का निजी सचिव होगा।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

दिनांक 27 जुलाई 2010

सं. एफ. 15/23/2008/एएन-1/जीएन-6448--इस सचिवालय की दिनांक 11 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना सं. जी एन-6042 के क्रम में श्री विनोद कौल, सहायक अभियंता, ए. जे. के. मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर, जामिया-मिलिया-इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, जो वर्तमान में लोक सभा सैटेलाइट टेलीविजन चैनल में प्रतिनियुक्ति आधार पर वरिष्ठ तकनीकी प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं, की प्रतिनियुक्ति अवधि 15 सितम्बर, 2009 से 14 सितम्बर, 2010 तक और एक वर्ष के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती है।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

सं. पीएफ. 756-आर (3)/जीएन-6449/एएन-1/2010--अध्यक्ष महोदया, 15,600—39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 8,000/- रुपये के वेतनबैंड में कार्यरत अपर निदेशक (लार्डिस), श्रीमती कांता पंडित को 37,400—67,000/- रुपये (पीबी-4) + ग्रेड पे 8,700/- रुपये के वेतन बैंड में निदेशक (लार्डिस) के ग्रेड में 26 जुलाई, 2010 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करती हैं।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

दिनांक 28 जुलाई 2010

सं. एफ. 15/07/2009/जीएन-6450/एएन-1--अध्यक्ष महोदया, वर्तमान में 37,400—67,000/- रुपये (पीबी-4) + ग्रेड पे 8,700/- रु. के वेतन बैंड में प्रतिनियुक्ति आधार पर माननीय लोक सभा अध्यक्ष (श्रीमती मीरा कुमार) की निजी सचिव के रूप में कार्यरत सुश्री शालिनी सिंह, आईपीएस (ए जी एम यू : 96) को 37,400—67,000/- रु. (पीबी-4) + ग्रेड पे 8,900/- रु. के वेतन बैंड में प्रतिनियुक्ति आधार पर माननीय अध्यक्ष की निजी सचिव के रूप में 23 जुलाई, 2010 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करती हैं।

माननीय लोक सभा अध्यक्ष (श्रीमती मीरा कुमार) के वैयक्तिक स्टाफ में सुश्री शालिनी सिंह की नियुक्ति सेवाधृति के आधार पर तथा वर्तमान माननीय लोक सभा अध्यक्ष के प्रसादपर्यन्त अथवा उनके कार्यकाल के साथ सह-विस्तारी होगी।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

दिनांक 29 जुलाई 2010

सं. पीएफ. 1501-आर (3)/जीएन-6451/एएन-I/2010--अध्यक्ष महोदया, 15,600—39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के वेतनबैंड में कार्यरत सहायक निदेशक (मार्शल) [संवर्ग वाह्य], श्री राजीव शर्मा-II को 15,600—39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600/- रुपये के वेतन बैंड में संयुक्त निदेशक (मार्शल) [संवर्ग वाह्य], के ग्रेड में 28 जुलाई 2010 से पन्द्रहवीं लोक सभा के कार्यकाल तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करती है।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

दिनांक 30 जुलाई 2010

सं. एफ. 15/13/2009/जीएन-6452/एएन-I--श्री राम चन्द्र सेठी को 15,600—39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के वेतन बैंड में रेल अभिसमय समिति के सभापति (श्री अर्जुन चरण सेठी) के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में 15 मार्च, 2010 से नियुक्त किया जाता है।

श्री राम चन्द्र सेठी की वरिष्ठ निजी सचिव के ग्रेड में नियुक्ति सेवाधृति के आधार पर तथा रेल अभिसमय समिति के वर्तमान सभापति (श्री अर्जुन चरण सेठी) के प्रसादपर्यन्त अथवा उनके कार्यकाल के साथ सह-विस्तारी होगी।

उनका पदनाम रेल अभिसमय समिति के सभापति का निजी सचिव होगा।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

सं. एफ. 15/13/2009/जीएन-6453/एएन-I--श्री आशुतोष सिंह चौहान को 15,600—39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के वेतनबैंड में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति के सभापति (श्री दारा सिंह चौहान) के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में 31 अगस्त, 2009 से नियुक्त किया जाता है।

श्री आशुतोष सिंह चौहान की वरिष्ठ निजी सचिव के ग्रेड में नियुक्ति सेवाधृति के आधार पर तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति के वर्तमान सभापति के प्रसादपर्यन्त अथवा उनके कार्यकाल के साथ सह-विस्तारी होगी।

उनका पदनाम सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति के सभापति का निजी सचिव होगा।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 अगस्त 2010

सं. ए-19013/03/2005-प्रशा.-1--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26 जुलाई, 2010 के कार्यालय आदेश सं. 3/4/2010-

सीएस. I (डी) द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वरिष्ठ सेलेक्शन ग्रेड (निदेशक) के लिए वर्ष 2010 की चुनिंदा सूची में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सेलेक्शन ग्रेड (उप सचिव) के अधिकारी, श्री रमन के. मेहता का नाम शामिल कर लिए जाने के परिणामस्वरूप, उन्हें 27 जुलाई, 2010 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर मंत्रिमंडल सचिवालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. जे. सिबिचन, अवर सचिव

अन्तरिक्ष विभाग

बैंगलूर-560231, दिनांक 20 जुलाई 2010

सं. ए-22016/1/2010-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्र-शार, श्रीहरिकोट में सुश्री वी. जी. भूमा, आई. आर. पी. एस. (1987) को नियंत्रक (प्रशासन) के पद पर जुलाई 14, 2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 25 अगस्त 2010

सं. ए-12025/11/2010-प्रशा. I--राष्ट्रपति, श्री वी. पी. गर्ग, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (परियोजना मूल्यांकन) की योजना आयोग में पी.बी.-3 रुपये 15,600—39,100/- + 7,600/- (ग्रेड पे) के वेतनमान में उप-सलाहकार (परियोजना मूल्यांकन) के पद पर तदर्थ नियुक्ति दिनांक 24.8.2010 से एक वर्ष तक के लिए या इस पद के नियमित उम्मीदवार के पद संभालने तक अथवा अगले आदेशों तक के लिए, इनमें से जो भी पहले हो, करते हैं।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह तदर्थ नियुक्ति उपर्युक्त अधिकारी को उप-सलाहकार के पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता और न ही उप-सलाहकार के पद पर उनकी इस तदर्थ नियुक्ति की अवधि को उप-सलाहकार ग्रेड में वरीयता के लिए अथवा उच्च स्तर पर प्रोन्नति के लिए गिना जायेगा।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 अगस्त 2009

सं. ए-19/जी-ए/99--श्री पी. के. दास, आई.आर.एस. (आई.टी. 1982) जिनकी सेवाएं, राजस्व कार्यालय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 17.08.2010 के पत्रव्यवहार सं. 19011/14/2008-ए.डी.-I द्वारा जारी उनके आदेश सं. 266/2010 द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निवर्तन के लिए रखी गई हैं, को ग्रेड वेतन 10,000/- रु. के साथ वेतन बैंड-4, 37,400—67,000/- रु. में दिनांक 18.08.2010 से तीन वर्ष की अवधि

के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारत निर्वाचन आयोग में महानिदेशक (निर्वाचन व्यव) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

एस. बी. जोशी, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 अगस्त 2010

सं. ए-45012/1/2009-प्रशा.-III(वि.का.)--केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीख से दिनांक 31 अगस्त, 2012 तक की अवधि के लिए अर्थात् भारत के 19वें विधि आयोग के कार्यकाल की समाप्ति तक भारत के 19वें विधि आयोग के अंशकालिक सदस्य के पद पर नियुक्त करती है :--

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री आर. वेंकटरमानी	02.08.2010
2.	श्री ए. मारियारपुतम	02.08.2010
3.	प्रो. (डॉ.) रणबीर सिंह	03.08.2010
4.	प्रो. (डॉ.) एम. अफजल वानी	03.08.2010
5.	डॉ. शशिकला गुरपुर	06.08.2010
6.	श्री बी. बी. आचार्य	07.08.2010
7.	श्री सी. अच्युतन	09.08.2010

एम. ए. खाँ यूसुफी, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त 2010

सं. ए-38012/04/2010-प्रशा.-IV(वि.का.)--अधिवर्षिता की आयु होने पर, श्री राम खिलाड़ी रावत, संयुक्त सचिव व विधि सलाहकार, दिनांक 31 अगस्त, 2010 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो रहे हैं।

आशा सोया, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 अगस्त 2010

सं. 14046/11/2010-यू.टी.एस.-II--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली सिविल सेवा (दानिक्स) के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी श्री अभिजीत सरकार (जन्म तिथि : 28 दिसम्बर, 1955) के दिनांक 1 जून, 2010 के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को स्वीकार करती है तथा उन्हें सी सी एस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48-क के अंतर्गत, इस शर्त के अध्वधीन तत्काल प्रभाव से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त

होने की अनुमति प्रदान करती है कि वह 31 अगस्त, 2010 को 3 माह के नोटिस की अवधि की समाप्ति से पूर्व अपनी पेंशन के एक भाग के संराशीकरण के लिए आवेदन नहीं करेंगे।

ए. के. दास, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त 2010

सं. आई-18012/8/2006-आईपीएस-1--भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति कर्नाटक संवर्ग को आर्बिट्रिट भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को, प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीखों से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम	भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी किए जाने की तारीख
	(सर्व/श्री)	
1.	बी. शिवकुमार (एसपीएस : 1998)	04.04.2006
2.	के. बी. श्रीधर (एसपीएस : 1998)	04.04.2006

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 अगस्त 2010

सं. क-32013/1/2010-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्री एम. एस. लूथर, को कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग में वेतन बैंड-4 (पी.बी.-4) रु. 37,400-67,000/- + रु. 8,700/- (ग्रेड पे) में निदेशक के रूप में दिनांक 27 जुलाई 2010 की पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

हरीश चन्द्र, अवर सचिव

सं. ए-32013/4/2009-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, सुश्री ममता कुन्दा, आई ए और ए एस (85) को कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग में 20 जुलाई, 2010 के पूर्वाह्न से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पे बैंड-4 (पी.बी.-4) रु. 37,400-67,000/- + रु. 10,000/- (ग्रेड पे) में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

हरीश चन्द्र, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 27 अगस्त 2010

सं. 14015/21/2009-अ.भा.से.-(I)-क--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चयन सूची वर्ष 2009 के लिए, राज्य सरकार के परामर्श से, उक्त विनियमावली के विनियम 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित गैर राज्य सिविल सेवा श्रेणी के

अंतर्गत तमिलनाडु के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में पदोन्नति कोटि रिक्तियों को भरने के लिए 18.08.2010 को विनियम 5 के अंतर्गत तैयार की गई और 18.08.2010 को अनुमोदित की गई तमिलनाडु की गैर राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की निम्नलिखित नामों वाली चयन सूची अधिसूचित करती है :--

चयन सूची वर्ष 2009

क्रम सं.	नाम	जन्म तिथि
(सुश्री/श्री)		
1.	डॉ. जगन्नाथन	06.06.1965
2.	एल. सिथेरासेनन	04.05.1956

उक्त चयन सूची में उपर्युक्त अधिकारियों का नाम शामिल किया जाना केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मद्रास खण्डपीठ में दायर की गई ओ.ए.सं. 1237/2009 के निर्णय के अधीन होगा।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/21/2009-अ.भा.से.(I)-ख--राष्ट्रपति, प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) नियमावली, 1997 के विनियम 8 और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चयन सूची वर्ष 2009 के लिए, राज्य सरकार परामर्श से, उक्त विनियमावली के विनियम 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों पर तमिलनाडु के गैर राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षा पर, अगले आदेशों तक नियुक्त करती है और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली 1954 के नियम 5(2) के अंतर्गत तमिलनाडु संवर्ग में आबंटित करती है :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम
(सुश्री/श्री)	
1.	डॉ. जगन्नाथ
2.	एल. सिथेरासेनन

उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मद्रास खण्डपीठ में दायर की गई ओ.ए. 1237/2009 के निर्णय के अधीन होगा।

एस.एस. शुक्ला, अवर सचिव

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 अगस्त 2010

सं. ए-19013/02/2010-प्र. सु. (प्रशा.-1)--राष्ट्रपति, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 1 जुलाई, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2010- सी.एस.-1 के तहत वर्ष 2009 हेतु केन्द्रीय सचिवालय सेवा

के चयन ग्रेड (उप सचिव) चयन सूची (खण्ड) में श्री ए. के. मारवाह को शामिल किए जाने के फलस्वरूप उन्हें दिनांक 08.07.2010 के पूर्वाह्न से नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियुक्त करते हैं।

बी. के. सिंह, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 2010

सं. 20/पीबी-III/2010--राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ग्रेड के निम्नलिखित अधिकारियों को इस मंत्रालय के दिनांक 1 जुलाई, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. क्यू/सीएडी/584/9/2009 में दी गई शर्तों के अनुसार उनके नाम के सामने दी गई तारीख से भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग के प्रधान स्टाफ अधिकारी के रूप में स्थानापन्न आधार पर नियुक्त करती है :--

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम	जन्म तिथि	पदोन्नति की तारीख
(श्री/श्रीमती)			
1.	मंजू बाला चन्नन*	03.05.1950	24.05.2010
2.	जी. विद्यानिधी	13.04.1963	24.05.2010

*उपर्युक्त अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31 मई, 2010 को सेवानिवृत्त हो गए।

2. उपर्युक्त अधिकारी ने अपने नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एस. के. वर्मा, उप सचिव (पीबी)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 2010

सं. 17/पीए-II/2010--सीसीएस पेंशन नियमावली के नियम 48 (क) के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए श्री जे. एस. जग्गी का अनुरोध स्वीकार होने के फलस्वरूप वे 22 जुलाई, 2010 पूर्वाह्न में भारतीय विदेश सेवा शाखा (ख) के ग्रेड-I से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

आर. गौरव श्रेष्ठ, उप सचिव (एफएसपी)

नई दिल्ली, दिनांक 5 अगस्त 2010

सं. 25/पीबी-I/2010--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-II और ग्रेड-III की अधिकारी श्रीमती सुधा रानी अग्रवाल (जन्म तिथि : 01.08.1950), सरकारी सेवा से 31 जुलाई, 2010 को अपराह्न में सेवानिवृत्त हो गईं।

एम. बी. वर्मा, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-I एवं III)

सं. 24/पीबी-1/2010--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-II और ग्रेड-III की अधिकारी श्री जगदीश मलिक (जन्म तिथि : 08.07.1950), सरकारी सेवा से 31 जुलाई, 2010 को अपराह्न में सेवानिवृत्त हो गए।

एम. बी. वर्मा, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-1 एवं III)

सं. 23/पीबी-1/2010--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-II और ग्रेड-III की अधिकारी श्री श्याम लाल गुप्ता (जन्म तिथि : 08.07.1950), सरकारी सेवा से 31 जुलाई, 2010 को अपराह्न में सेवानिवृत्त हो गए।

एम. बी. वर्मा, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-1 एवं III)

सं. 22/पीबी-1/2010--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-II और ग्रेड-III की अधिकारी श्री के. जी. कौशिक (जन्म तिथि : 15.07.1950), सरकारी सेवा से 31 जुलाई, 2010 को अपराह्न में सेवानिवृत्त हो गए।

एम. बी. वर्मा, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-1 एवं III)

कार्यालय, प्रोटोकॉल उप-प्रमुख (एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 18 अगस्त 2010

सं. डी-III/460/सी एफ-21/2010--राष्ट्रपति ने श्री लिन चुंग यिंग की मुम्बई में सिंगापुर गणराज्य के प्रधान कौंसल के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता दे दी है।

श्री लिन चुंग यिंग का कौंसली क्षेत्राधिकार होगा : महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्यप्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ राज्य।

दिनेश भाटिया, उप निदेशक एवं उपन्याचार-प्रमुख (एफ)

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 2010

सं. ए-22011/2/2008-प्रशा.-2--राष्ट्रपति, व्यय विभाग (सीएस) के दिनांक 23.07.2010 के का.ज्ञा. सं. 32014/1/2009-सीएस के अनुसरण में, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों की वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 30.06.2010 से 31.12.2010 तक अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं:-

क्र. अधिकारियों के नाम
सं.

1	2
	(सर्वश्री)
1.	रीता सचदेवा
2.	वाई. वाई. पराते

1	2
3.	स्वर्ण रूद्रा
4.	साधना शर्मा
5.	नीलम सिब्बल
6.	दयाल कुमारी कालरा
7.	संजय कुमार झा
8.	सरिता गुलाटी
9.	भास्कर चक्रवर्ती
10.	भोला नाथ सेनी
11.	मनोज मनु
12.	जे. एल. जैन
13.	नीरा बुद्धिराजा
14.	अशोक कुमार
15.	के. एल. मीणा
16.	रमेश प्रसाद
17.	मगनदीप
18.	ई. कुजूर
19.	सतिन्दर जीत कौर
20.	शिखा दास
21.	सुनील कुमार मांडी

श्रीमती मंजू माथुर की तदर्थ नियुक्ति 12.07.2010 (पूर्वाह्न) अर्थात् व तारीख जब से वह सरकारी सेवा के स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हुई थी, तक जारी थी।

अनुभाग अधिकारी के रूप में उपरोक्त सहायकों की तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अधीन होगी :-

(क) यह तदर्थ नियुक्ति कामचलाऊ व्यवस्था होने के कारण अधिकारियों को अनिश्चित काल तक ग्रेड में बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में उनका नाम शामिल किए जाने या अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा पेश करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(ख) यह तदर्थ व्यवस्था तब तक चलती रहेगी जब तक कि वरिष्ठता कोटा या सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) के जरिए या अगले आदेशों तक अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते। अगर तदर्थ रूप से नियुक्त व्यक्ति नियमित नियुक्ति हेतु इन दोनों श्रेणियों में अर्ह नहीं होते, तो उन्हें

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आबंटित उनके संबंधित संवर्ग में उनके (नियमित अनुभाग अधिकारी) द्वारा कार्यभार संभालने की तारीख से सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

दिनांक 23 अगस्त 2010

सं. ए-19011/19/2010-प्रशा.-2---राष्ट्रपति, डॉ. थोमस मैथ्यू, भारतीय प्रशासनिक सेवा (केरल : 83) को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 23 अगस्त, 2010 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 25 अगस्त 2010

सं. ए-32014/1/2008-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'ग' आशुलिपिक (आशुलिपिक ग्रेड 'क' एवं 'ख' (विलयित) (तदर्थ) श्री गिरीश कुमार गावने को वर्ष 2006 की चयन सूची में शामिल किए जाने के पश्चात् उनकी पदोन्नति के आधार पर 30 जुलाई, 2010 से पे बैंड-2 रु. 9,300--34,800/- + 5,400/- (ग्रेड पे) में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में आशुलिपिक ग्रेड 'क' एवं 'ख' (विलयित) (निजी सचिव के रूप में पदनामित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. कृष्णामूर्ति, अवर सचिव

विनिवेश विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 25 अगस्त 2010

सं. 9/7/2007-प्रशा.--विनिवेश विभाग में अवर सचिव, श्री खेम सिंह सेवा-निवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर 31 अगस्त, 2010 के अपराह्न से भारत सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

आशीष कुमार, अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 20 अगस्त 2010

सं. ए-11011/2/2010-प्रशासन-I--वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की आई.डी. संख्या 802203/आरआई/ईसी-I/10 दिनांक 17.08.2010 के

अनुसार, राष्ट्रपति कारपोरेट कार्य मंत्रालय में पदधारक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से निम्नलिखित छः स्थाई पदों का सृजन करते हैं :--

क्र. सं.	पद का नाम	पे बैंड+पे ग्रेड	पदों की संख्या
1.	निदेशक	पीबी-4 में 37,400--67,000/- रु. + 8,700/- रु. (ग्रेड पे)	01
2.	उप सचिव	पीबी-3 में 15,600--39,100/- रु. + 7,600/- रु. (ग्रेड पे)	02
3.	व्यक्तिगत सहायक	पीबी-2 में 9,300--34,800/- रु. + 4,600/- रु. (ग्रेड पे)	03

वी. के. कपूर, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

(पूर्ति प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 2010

सं. ए-32013/1/2010-संवर्ग--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 6 अगस्त, 2010 के कार्यालय आदेश संख्या 4/2/2010-सीएस-I (डी), के अनुसरण में और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 3 अगस्त, 2010 के का. ज्ञा. सं. 4/3/2010-सीएस-I (डी), द्वारा वर्ष 2010 (पार्ट) के लिए सलेक्शन ग्रेड की चयन सूची में शामिल किए जाने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति, श्री डब्ल्यू. एन. मैसी को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप सचिव के नाते 13 अगस्त, 2010 के पूर्वाह्न से नियमित आधार पर पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त प्रोन्नति, सुश्री गरिमा सिंह बनाम भारत संघ व अन्य के बारे में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, कोलकाता के समक्ष, वर्तमान में लंबित ओ.ए. सं. 1864/2009 के अंतिम आदेशों के अधीन होगी।

संजय शंकर, अवर सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली-110107, दिनांक 2 अगस्त 2010

सं. 11(43)/2009-स्थापना--इस्पात मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यरत सीएसएस संवर्ग के अधिकारी श्री यशपालपुरी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.07.2010 (अपराह्न) को सेवा निवृत्त हो गए हैं।

जी. वैधेश्वरन, अवर सचिव

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 अगस्त 2010

सं. ए-18011/113/2010-स्था.--श्री अमरेन्द्र सिंहा, भा. प्र. से. (उत्तराखण्ड : 1981) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में दिनांक 23 अगस्त, 2010 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, संयुक्त सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

पी.पी. मुरलीधरन, उप सचिव

सं. ए-18011/70/2005-स्था.--श्री प्रवीर कुमार, भा. प्र. से. (उत्तर प्रदेश : 1982) ने विकास आयुक्त के रूप में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, दहेज, अहमदाबाद (गुजरात) में चयन हो जाने के फलस्वरूप दिनांक 23 अगस्त, 2010 के पूर्वाह्न से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

पी.पी. मुरलीधरन, उप सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 अगस्त 2010

सं. ए-12015/2/2009-स्था.--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 1 जून, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/13/2009-सीएस.II (क) और रक्षा मंत्रालय के दिनांक 13 अगस्त, 2010 के कार्यालय आदेश सं. 89 के अनुसंरण में, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के नियमित आशुलिपिक ग्रेड 'ग' और रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर आशुलिपिक ग्रेड 'क' व 'ख' (विलयित) के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्यरत श्रीमती विजय नारंग को 16 अगस्त, 2010 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक उपभोक्ता मामले विभाग में 9,300--34,800/- रुपये के संशोधित वेतन बैंड (वेतन बैंड-2) तथा 4,800/- रुपये के ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर आशुलिपिक ग्रेड 'क' व 'ख' (विलयित) (चयन सूची वर्ष, 2007) के पद पर नियुक्त करते हैं।

प्रेमा भट्ट, अवर सचिव

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 23 अगस्त 2010

सं. ए-32013/1/2006-स्था.1--राष्ट्रपति, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव श्री एडवर्ड टोप्पो को 30.07.2010 के अपराह्न से (पी. बी.-3) 15,600--39,100/- रुपये + 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करती है।

2. श्री एडवर्ड टोप्पो की प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में पदोन्नति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है और उन्हें अनिश्चितकाल तक ग्रेड में बने रहने या प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरीयता का दावा करने का किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

अरूण कुमार सिंह, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 30 जुलाई 2010

सं. ए-19014/01/90-प्रशा.1(ए)--विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक "जी" डॉ. जी. पदमानाभम को इन्टरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फार पाऊडर मेटलर्जी एण्ड न्यू मैटिरियल्स (ए आर सी आई), हैदराबाद में 11.05.2010 से एसोसिएट निदेशक (वैज्ञानिक "जी") के रूप में उनके आमेलन के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 37 के अनुसार समय-समय पर यथासंशोधित 10.05.2010 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं। वे केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत की गई सेवा के लिए सेवानिवृत्ति का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।

लता गोपकुमार, अवर सचिव

सं. ए-19013/05/92-प्रशा.1(ए)--राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक "एफ" श्री चन्द्र प्रकाश को अधिवर्षिता की आयु में पहुंचने पर 31 जुलाई, 2010 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

लता गोपकुमार, अवर सचिव

दिनांक 19 अगस्त 2010

सं. ए-01/18/2010-प्रशा.1(ए)--राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में निम्नलिखित वैज्ञानिकों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से वैज्ञानिक "सी" और "डी" के पद पर स्थायी हैसियत में सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	पुष्टि की तारीख
1.	डॉ. गोपी कृष्णा कोंगा, वैज्ञानिक "सी"	03.03.2009
2.	डॉ. (कु.) वन्दना सिंह, वैज्ञानिक "सी"	10.10.2009
3.	डॉ. (श्रीमती) प्रतिष्ठा टी. पाण्डेय वैज्ञानिक "डी"	23.10.2009
4.	डॉ. अरविन्द कुमार, वैज्ञानिक "डी"	12.12.2009

लता गोपकुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 अगस्त 2010

सं. ए.12025/50/2007-सीएचएस. IV--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. प्रेम चौधरी को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के गैर-शैक्षणिक विशेषज्ञ उप-संवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड-II (मेडिसीन) के पद पर 30 अक्टूबर, 2009 की पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक परीवीक्षा पर नियुक्त करती है।

वी. पी. राणा, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 30 अगस्त 2010

सं. ए.12018/1/2007-डी.एफ.क्यू.सी.--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर श्री बालाजी नरसिंगा प्रसाद पुलिजला सुपुत्र स्वर्गीय श्री पुलिजला सोमाय्या को दिनांक 11 अगस्त, 2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक संशोधित वेतन संरचना पी.बी.-3, 15,600--39,100/- रुपए + 7,600/- रुपए का ग्रेड वेतन (समूह 'क' राजपत्रित) + स्वीकार्य भत्ते में सीधी भर्ती के आधार पर उप औषध नियंत्रक (भारत), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के पद पर अस्थायी क्षमता में नियुक्त करते हैं।

2. श्री बालाजी नरसिंगा प्रसाद पुलिजला एक वर्ष की अवधि तक परीवीक्षा पर रहेंगे।

सुधीर कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई 2010

सं. ए.-110011/14/2007-पीएच(सीडीएल)/पीएच--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर श्री सुखपाल सिंह, प्रशासनिक अधिकारी, एनसीडीसी, दिल्ली को राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में दिनांक 19 फरवरी, 2010 से सहायक निदेशक (प्रशासन) के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अगस्त 2010

सं. 29/8/2009-पी.पी.-II(वाल्सूम-II)--राष्ट्रपति, डॉ. एस. के. खुराना, वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं भंडारण निदेशालय में सलाहकार (सी.एच.एस. के गैर अध्यापन विशेषीकृत के अतिकाल श्रेणी) को 28 जुलाई, 2010 से अगले आदेश होने तक सचिव पद का अतिरिक्त पद-भार (केन्द्रीय कौट नाशी बोर्ड एवं पंजीकरण समिति) सौंपते हैं।

ज्योति सिंघल, अवर सचिव

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 27 अगस्त 2010

सं. ए.-19013/37/2010-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री राजेश रंजन, आई. डी.ए.एस. 1996 को कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय में वेतन बैंड-4 (37,400--67,000/- + ग्रेड वेतन 8,700/- रुपये) में

निदेशक के पद पर दिनांक 10 अगस्त, 2010 पूर्वाह्न से केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के तहत पांच वर्षों अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

विजय सिंह, अवर सचिव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई 2010

सं. 5-7/2010-प्रशासन--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19 मई, 2010 के का. ज्ञा. सं. 6/2/2010-सी.एस.-1(एस) के अनुसार वर्ष 2007 की चयन सूची (वरिष्ठता कोट) में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों (तदर्थ) के नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, 01 जुलाई, 2007 से इन्हें केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं :-

1. श्री जे. एस. दुग्गल

2. श्रीमती डर्मिल पुंज

3. श्री जे. एस. मिन्हास

2. उपर्युक्त नियुक्तियां, न्यायालय में दायर कैलाश चन्दर बनाम भारत संघ मामला सं. 13245-60/2005, जो दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है, श्री सौरांशु सिन्हा बनाम संघ मामला संख्या ओ.ए. 1083/2007 तथा एम.ए. सं. 1171/2007, जो केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली में लंबित है, दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर सी.डब्ल्यू.पी. सं. 13352/2005, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली में दायर ओ.ए. सं. 3294/2009 तथा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली में दायर ओ.ए. सं. 2674/2009 में पारित निर्णयों के अध्यधीन होंगी।

नवीन यादव, अवर सचिव

दिनांक 30 जुलाई 2010

सं. 4-26/2006-प्रशासन--महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी, श्री नारायण दास अपनी अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने के परिणामस्वरूप दिनांक 31.07.2010 (अपराह्न) को सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

नवीन यादव, अवर सचिव

सं. 4-26/2009-प्रशासन--महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में उप सचिव, श्री के. के. शर्मा अपनी अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने के परिणामस्वरूप दिनांक 31.07.2010 (अपराह्न) को सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

नवीन यादव, अवर सचिव

सं. 4-212/87-प्रशासन--महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी, श्री अजीजुद्दीन अपनी अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने के परिणामस्वरूप दिनांक 31.07.2010 (अपराह) को सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

नवीन यादव, अवर सचिव

दिनांक 16 अगस्त 2010

सं. 5-8/2007-प्रशा.--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 1 जून, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/13/2009-सी.एस.-II(ए) के अनुसार श्रीमती ऊषा रानी सेठी का नामांकन आशुलिपिक ग्रेड 'क' और 'ख' (आमेलित) के लिए किए जाने तथा सी.एस.एस.एस. की वर्ष 2007 की चयन सूची में उनका नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति उन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में 15 जुलाई, 2010 के पूर्वाह्न से आशुलिपिक ग्रेड 'क' और 'ख' (आमेलित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

नवीन यादव, अवर सचिव

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 अगस्त 2010

सं. ए-22012/1/2006-स्था.--राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति सचिवालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12 अगस्त, 2010 के का. ज्ञा. सं. 22/04/2010-ईओ (एसएम-1) के अनुसरण में श्री बी. पी. शर्मा, भा.प्र.से. (बिहार : 81) एवं बिहार सरकार में वित्त विभाग के प्रधान सचिव को दिनांक 23 अगस्त, 2010 (पूर्वाह्न) से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में 37,400--67,000/- रुपये के वेतन बैंड-4 तथा ग्रेड वेतन 10,000/- रुपये में संयुक्त सचिव के पद पर अगले 5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक के लिए, जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करती हैं।

गोपाल दास, उप सचिव

सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
नई दिल्ली, दिनांक 6 अगस्त 2010

सं. ए.38013/2/2010-ई.1/(बी)--केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के अधिकारी और सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में निजी सचिव के रूप में कार्यरत श्रीमती विश्वा एलावादी, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप दिनांक 31.07.2010 (अपराह) को सेवानिवृत्त हो गई हैं।

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

दिनांक 9 अगस्त 2010

सं. ए.38013/1/2010-ई.1/(बी)--केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के अधिकारी और सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में निजी

सचिव के रूप में कार्यरत श्री ए. के. मेहता, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप दिनांक 31.07.2010 (अपराह) को सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

दिनांक 13 अगस्त 2010

सं. ए-12025/1/2010-ई-1--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.07.2010 के कार्यालय आदेश सं. 3/4/2010-सी.एस.-I (डी) के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा की वर्ष 2010 की वरिष्ठ चयन ग्रेड चयन सूची में निदेशक के रूप में पदोन्नति के लिए उनका नाम शामिल किए जाने तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में उनकी तैनाती किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में इस समय उप सचिव (केन्द्रीय सचिवालय सेवा का चयन ग्रेड) के पद पर कार्यरत श्री एस. एस. गुलिया को 37,400--67,000/- रुपये के पे बैंड-4 + 8,700/- रु. के ग्रेड पे में दिनांक 26.07.2010 के (अपराह) से इसी मंत्रालय में नियमित आधार पर निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

दिनांक 17 अगस्त 2010

सं. ए-12033/1/2010-ई-1--नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के सचिवालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.7.2010 के आदेश सं. 1/7/2010-ई.ओ. (एस.एम.-1) के अनुसरण में राष्ट्रपति, श्री नितिन रमेश गोकर्ण, आई ए एस (यू पी : 90) को, सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में 37,400--67,000/- रुपये के पे बैंड (पीबी-4)+10,000/- रु. के ग्रेड पे में उनके 5 वर्ष के केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल की शेष अवधि के लिए अर्थात् दिनांक 22.07.2010 (पूर्वाह्न) से 3.06.2013 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं।

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

सं. ए-12022/2/2010-ई-1--नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के सचिवालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23.7.2010 के आदेश सं. 1/10/2010-ई.ओ. (एस.एम.-1) के अनुसरण में राष्ट्रपति, श्री रमिन्दर सिंह गुजराल, आई ए एस (हरियाणा : 76) को, सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में दिनांक 31.07.2010 (अपराह) से सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं।

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 अगस्त 2010

सं. ए-22017/1/2007-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, श्री महमूद अहमद, आईपी एंड टीए एंड एफएस (1993) को 16.06.2012 तक की अवधि

के लिए (अर्थात् प्रतिनियुक्ति पर सात वर्षों की अनुमेय संयुक्त अवधि के भीतर) 13 अगस्त, 2010 (अपराह्न) से अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, शहरी विकास मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

जितेन्द्र कुमार, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 अगस्त 2010

सं. ए-32014/01/2010-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 07.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/6/2009-सीएस-I (एस) के अनुसरण में श्रम और रोजगार मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों को तदर्थ आधार पर 31.12.2010 तक की अवधि के लिए इस मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी (समूह "ख"/राजपत्रित (पे बैंड-2, 9,300--34,800/- रु. ग्रेड पे 4,800/- रु.) के ग्रेड में नियुक्त करती हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	सहायक ग्रेड का प्रवर सूची वर्ष	अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) के रूप में नियुक्ति की तारीख
1	2	3	4
1.	श्री आई डी. शर्मा	1993	01.07.2010
2.	श्रीमती प्रेम चोपड़ा	1993	01.07.2010
3.	श्री आर. के. त्रेहन (अनु. जा.)	1993	01.07.2010
4.	श्री नरेश कुमार	1994	01.07.2010
5.	श्रीमती रोता सिंह	1994	01.07.2010
6.	श्री ओम प्रकाश (अनु. जा.)	1994	01.07.2010
7.	श्री शीष राम (अनु. जा.)	1994	01.07.2010
8.	श्री अरुण कुमार शर्मा	1994	01.07.2010
9.	श्री वी. सी. त्रिपाठी	1995	01.07.2010
10.	श्रीमती सरोज बाला भाटिया	1995	01.07.2010
11.	श्री अनिल कुमार शर्मा	1995	01.07.2010
12.	श्री विनोद कुमार (अनु. जा.)	1995	01.07.2010
13.	श्री योगेन्द्र वी. रणदीव (अनु. ज. जा.)	1995	01.07.2010

1	2	3	4
14.	श्री जमना दास (अनु. जा.)	1995	05.08.2010
15.	मौ. कामिल	1996	02.08.2010

2. ऊपर उल्लिखित सहायकों को तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :--

- (क) तदर्थ पदोन्नति की अवधि 31.12.2010 तक अथवा नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध कराए जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक होगी।
- (ख) तदर्थ नियुक्ति, नियुक्त किए गए किसी भी व्यक्ति को इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने का अथवा नियमित नियुक्ति के लिए अनुभाग अधिकारियों की प्रवर सूची में शामिल किए जाने को अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का हक प्रदान नहीं करेगी।
- (ग) तदर्थ नियुक्ति, अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता कोट और/अथवा सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) के माध्यम से नियमित उम्मीदवारों के उपलब्ध करवाए जाने तक जारी रहेगी। तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्ति के इन दो श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में नियमित नियुक्ति हेतु अर्हक नहीं हो पाने की स्थिति में उन्हें, ऐसे नियमित अधिकारियों के उपलब्ध हो जाने पर जिस तारीख से वे (नियमित अधिकारी) अपनी ड्यूटी ग्रहण करेंगे उस तारीख से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा आवंटित संबंधित संवर्ग यूनियनों में सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

प्रदीप गौड़, अवर सचिव

दिनांक 23 अगस्त 2010

सं. ए-22011/01/2009-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, श्री रवि माधुर, आईएएस (आरजे : 79) को 23 अगस्त, 2010 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक श्रम और रोजगार मंत्रालय में एचएजी + 75,500--80,000/- रुपये के वेतनमान में अपर सचिव के पद पर नियुक्त करती हैं।

प्रदीप गौड़
अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110101, the 25th August 2010

No. A. 22012/004/2010-PME—The President is pleased to appoint Smt. Manisha Verma, IAS (MH:93) as Director in the National Advisory Council on deputation basis in PB-4 (Rs. 37,400—67,000/-) with the Grade Pay of Rs. 8,700/- with effect from the forenoon of 10th August, 2010 to 07.06.2013 or until further orders, whichever is earlier.

K. SALIL KUMAR, Under Secy.

No. A. 22012/004/2010-PME—The President is pleased to appoint Shri S. Ravi, Under Secretary of CSS cadre of Ministry of Home Affairs as Under Secretary in the National Advisory Council in PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 6,600/- on deputation basis with effect from the afternoon of 16th July 2010.

K. SALIL KUMAR, Under Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 27th August 2010

No. RS/42/3/2010/78-Perl.—Kum. Bharti Tiwari, Director (Media) has resumed duties in this Secretariat with effect from the forenoon of 1st July, 2010 on return from deputation in the Parliamentary Development Centre (PDC), Iraq.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 7th July 2010

No. F.41/17/GN-6441/AN-I/2010—Smt. Ritu Jain, who is presently working as Conservator on deputation basis is relieved of her duties with effect from the afternoon of 07.07.2010 and thereafter, her services are placed back at the disposal of her parent department i.e. Indira Gandhi National Centre for the Arts, New Delhi.

2. The existing tenure of deputation of Smt. Ritu Jain in Lok Sabha Secretariat shall be deemed to have been extended with effect from 01.06.2010 upto 07.07.2010.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

No. PF.4225-R(3)/AN-I/GN-6442/2010—In continuation of this Secretariat Notification No. GN-5707 dated 7th August, 2006, the services of Shri U. Anjan Kumar, System Analyst of Karnataka Legislative Assembly Secretariat, Bangalore, Karnataka who is presently working as System Analyst in this Secretariat on deputation basis are extended for a period of one year with effect from 4th August, 2009 upto 3rd August, 2010 or until further orders, whichever is earlier.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

The 13th July 2010

No. PF.1483-R(3)/GN-6443/AN-I/2010—Smt. Kanwaljit Deol, IPS (AGMU:77) who is presently working as Additional Secretary (Security) on deputation basis is relieved of her duties with effect from 13th July, 2010 (A/N) and thereafter, her services are placed back at the disposal of her Cadre Controlling Authority i.e. Ministry of Home Affairs, New Delhi.

2. The existing tenure of deputation of Smt. Kanwaljit Deol in Lok Sabha Secretariat shall be deemed to have been extended with effect from 25th October, 2008 upto 13th July, 2010 (A/N).

P. K. GROVER, Jt. Secy.

No. F.15/16/2010/GN-6444/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Shri P. R. Meena, IPS (AGMU:80) as Joint Secretary (Security) in the scale of pay of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) + Grade Pay of Rs. 10,000/- in Lok Sabha Secretariat on deputation basis with effect from 13th July, 2010 (F/N) upto 31st August, 2012 or until further orders, whichever is earlier.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

The 14th July 2010

No. F.15/13/2010/GN-6445/AN-I—Shri R. Surendran Nair who was appointed as Senior Private Secretary on the personal staff of Chairman, Committee on Public Accounts, will continue to work as Senior Private Secretary on the personal staff of Chairman, Committee on Chemicals and Fertilizers (Shri Gopinath Munde) with effect from 7th May, 2010 on tenure basis and during the pleasure of co-terminus basis with the term of present Chairman, Committee on Chemicals and Fertilizers.

2. He will be designated as Private Secretary to the Chairman, Committee on Chemicals and Fertilizers.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

The 22nd July 2010

No. F.41/17/GN-6446/AN-I/2010—Para 2 of this Secretariat Notification No. GN-6441 dated 07.07.2010 regarding relieving of Smt. Ritu Jain, Conservator with effect from the afternoon of 07.07.2010 may be read as under :—

“The existing tenure of deputation of Smt. Ritu Jain in Lok Sabha Secretariat shall be deemed to have been extended with effect from 06.09.2009 upto 07.07.2010”.

2. Notification No. GN-6441 dated 07.07.2010 stands modified to the above extent.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

The 27th July 2010

No. F.15/23/2008/AN-I/GN-6448—In continuation of this Secretariat Notification No. GN-6042 dated 11th April, 2008, the term of deputation of Shri Vinod Kaul, Assistant Engineer, AJK Mass Communication Research Centre, Jamia Millia Islamia University, New Delhi who is presently working as Senior Technical Manager in the Lok Sabha Satellite Television Channel on deputation basis is extended for a period of one year with effect from 15th September, 2009 upto 14th September, 2010 or until further orders, whichever is earlier.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

No. PF.756-R(3)/GN-6449/AN-I/2010—The Speaker is pleased to appoint Smt. Kanta Pandit, Additional Director (LARRDIS) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) with Grade Pay of Rs. 8,000/- to the grade of Director (LARRDIS) in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) with Grade Pay of Rs. 8,700/- with effect from 26th July, 2010, until further orders.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

The 28th July 2010

No. F.15/07/2009/GN-6450/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Ms. Shalini Singh, IPS (AGMU:96) who is presently working as Private Secretary to Hon'ble Speaker, Lok Sabha (Smt. Meira Kumar) in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) + GP of Rs. 8,700/- on deputation basis as Private Secretary to Hon'ble Speaker in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) + GP of Rs. 8,900/- on deputation basis with effect from 23rd July, 2010 until further orders.

2. The appointment of Ms. Shalini Singh on the personal staff of Hon'ble Speaker, Lok Sabha (Smt. Meira Kumar) will be on tenure basis and during the pleasure of or co-terminus with the term of the present Hon'ble Speaker, Lok Sabha.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

The 29th July 2010

No. PF.1501-R(3)/GN-6451/AN-I/2010—The Speaker is pleased to appoint Shri Rajeev Sharma-II, Assistant Director (Marshal) (ex-cadre) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) with Grade Pay of Rs. 6,600/- to the grade of Joint Director (Marshal) (ex-cadre) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) with Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from 28th July, 2010 till the tenure of the 15th Lok Sabha or until further orders, whichever is earlier.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

The 30th July 2010

No. F.15/13/2009/GN-6452/AN-I—Shri Rama Chandra Sethy is appointed as Senior Private Secretary in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) with Grade Pay Rs. 6,600/- on the personal staff of Chairman, Railway Convention Committee (Shri Arjun Charan Sethi) with effect from 15th March, 2010.

2. The appointment of Shri Rama Chandra Sethy to the grade of Senior Private Secretary will be on tenure basis and during the pleasure of or co-terminus with the term of the present Chairman, Railway Convention Committee (Shri Arjun Charan Sethi).

3. He will be designated as Private Secretary to the Chairman, Railway Convention Committee.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

No. F.15/13/2009/GN-6453/AN-I—Shri Ashutosh Singh Chauhan is appointed as Senior Private Secretary in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) with Grade Pay Rs. 6,600/- on the personal staff of Chairman, Committee on Social Justice and Empowerment (Shri Dara Singh Chauhan) with effect from 31st August, 2009.

2. The appointment of Shri Ashutosh Singh Chauhan to the grade of Senior Private Secretary will be on tenure basis and during the pleasure of or co-terminus with the term of the present Chairman, Committee on Social Justice and Empowerment.

3. He will be designated as Private Secretary to the Chairman, Committee on Social Justice and Empowerment.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 6th August 2010

No. A-19013/03/2005-Ad-I—The President is pleased to appoint Shri Raman K. Mehta, an officer of the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS as Director of CSS in the Cabinet Secretariat on regular basis with effect from 27th July, 2010 (FN), consequent upon inclusion of his name in the Senior Selection Grade (Director) Select List of CSS for the year 2010 vide Department of Personnel and Training Office Order No. 3/4/2010-CS.I(D) dated 26th July, 2010.

K. J. SIBICHAN, Under Secy.

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560231, the 20th July 2010

No. A.22016/1/2010-I—The President is pleased to appoint Ms. V. G. Bhooma, IRPS (1987) as Controller (Administration) in Satish Dhawan Space Centre—SHAR,

Sriharikota of the Department of Space with effect from the forenoon of 14th July, 2010 and until further orders.

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 25th August 2010

No. A.12025/11/2010-Adm.I—The President is pleased to appoint Shri V. P. Garg, a regular Senior Research Officer (Project Appraisal), Planning Commission against the post of Deputy Adviser (Project Appraisal) in the Planning Commission in PB-3 of Rs. 15,600—39,100 + 7,600/- (Grade Pay) on ad hoc basis for a period of one year w.e.f. 24.08.2010 (FN) or till the regular incumbent joins back to Planning Commission or until further orders, whichever is earlier.

2. It is made clear that the above said ad hoc appointment will not bestow on Shri Garg any right to claim for regular appointment in the grade of Deputy Adviser and also that any service rendered by him on ad hoc basis in the grade of Deputy Adviser would neither count for the purpose of seniority in the grade of Deputy Adviser nor towards eligibility for promotion to the next higher grade.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 23rd August 2010

No. A-19/G-A/99—Shri P. K. Dash, IRS (IT:1982), whose services have been placed at the disposal of the Election Commission of India, vide Ministry of Finance, Department of Revenue Office Order No. 266/2010 issued vide their Communication No. A.19011/14/2008-Ad.I, dated 17.08.2010, is appointed as Director General (Election Expenditure) in the Pay Band-4, Rs. 37,400—67,000/-, with Corresponding Grade Pay of Rs. 10,000/- in the Election Commission of India, for a period of 3 years w.e.f. 18.08.2010 or until further orders, whichever is earlier.

S. B. JOSHI, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 26th August 2010

No. A-45012/1/2009-Admn.III(LA)—The Central Government is pleased to appoint the following persons as Part time Members in the 19th Law Commission of India with effect from the dates as shown against their names and upto 31st August, 2012, i.e. till the end of the term of the 19th Law Commission of India :—

Sl.No.	Name	With effect from
1	2	3
1.	Shri R. Venkataramani	02.08.2010
2.	Shri A. Mariarputham	02.08.2010
3.	Prof. (Dr.) Ranbir Singh	03.08.2010

1	2	3
4.	Prof. (Dr.) M. Afzal Wani	03.08.2010
5.	Dr. Shashikala Gurpur	06.08.2010
6.	Shri B. V. Acharya	07.08.2010
7.	Shri C. Achuthan	09.08.2010

M. A. KHAN YUSUFI, Jt. Secy. & Legal Adviser

New Delhi, the 31st August 2010

No. A-38012/04/2010-Admn.IV(LA)—On attaining the age of superannuation, Shri Ram Khiladi Rawat, Joint Secretary & Legal Adviser retires from Government Service with effect from the afternoon of 31st August, 2010.

ASHA SOTA, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 13th August 2010

No. 14046/11/2010-UTS-II—The President is pleased to accept the notice of Voluntary Retirement dated 1st June, 2010 of Shri Abhijit Sarkar (Date of Birth: 28th December, 1955), Junior Administrative Grade Officer of the NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Civil Service (DANICS) and permit him to retire voluntarily under rule 48-A of the CCS (Pension) Rules, 1972, with immediate effect, subject to the condition that he shall not apply for commutation of a part of his pension before the expiry of the period of notice of 3 months on 31st August, 2010.

A. K. DAS, Under Secy.

New Delhi, the 31st August 2010

No. I-18012/8/2006-IPS-I—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following members of the Indian Police Service allocated to the Cadre of Karnataka in the Indian Police Service, with effect from the dates indicated against each :—

S.No.	Name of the Officers	Date of Confirmation
1.	Shri B. Shivakumar	04.04.2006
2.	Shri K. V. Sridhar	04.04.2006

O. S. ASHOK, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 25th August 2010

No. A-32013/1/2010-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri M. C. Luther, CSS as Director in the

(PB-4) of Rs. 37,400—67,000+8,700/- (Grade Pay) in the Department of Personnel & Training with effect from the forenoon of 27th July, 2010.

HARISH CHANDER, Under Secy.

No. A-32013/4/2009-Ad.I—The President is pleased to appoint Ms. Mamta Kundra, IA&AS (85), as Joint Secretary in the (PB-4) of Rs. 37,400—67,000+10,000/- (Grade Pay) in the Department of Personnel & Training with effect from the forenoon of 20th July, 2010 for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

HARISH CHANDER, Under Secy.

New Delhi, the 27th August 2010

No. 14015/21/2009-AIS(I)-A—In exercise of the powers conferred by Rule 8(2) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 8 of Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997, the President is pleased to notify the Select List of Non-State Civil Service Officers of Tamil Nadu containing the following names prepared on 18.06.2010 under Regulation 5 and approved on 18th August, 2010 under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in IAS Cadre of Tamil Nadu under Non State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 3 of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List Year 2009 :—

SELECT LIST 2009

S.No.	Name	Date of Birth
1.	Shri D. Jagannathan	06.06.1965
2.	Shri L. Sitherasenan	04.05.1956

2. The inclusion of the above officers in the said Select List shall be subject to the outcome of the O.A. No. 1237/2009 filed before the Hon'ble CAT Madras Bench.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/21/2009-AIS(I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(2) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 8 of Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the Non-State Civil Service of Tamil Nadu to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 3 of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List Year 2009, on probation until further orders and to allocate them to the

Tamil Nadu Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

S.No.	Name of the Officer
1.	Shri D. Jagannathan
2.	Shri L. Sitherasenan

2. The appointment of the above officers shall be subject to the outcome of the O.A. No. 1237/2009 filed before the Hon'ble CAT Madras Bench.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS & PUBLIC GRIEVANCES

New Delhi-110001, the 19th August 2010

No. A-19013/02/2010-AR(Ad.I)—Consequent upon his inclusion in the Selection Grade (Deputy Secretary) Select List (Part) of Central Secretariat Service for the year 2009 vide Department of Personnel & Training's Office Memorandum No. 4/2/2010-CS.I (D) dated 1st July, 2010, the President is pleased to appoint Shri A. K. Marwaha to the Selection Grade of CSS (Deputy Secretary) on regular basis with effect from the forenoon of 08.07.2010.

B. K. SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 21st July 2010

No. 20/PB-III/2010—The President is pleased to appoint the undermentioned officers belonging to the Principal Private Secretary grade of the Stenographers Cadre of IFS (B) to officiate in the Grade of Senior Principal Private Secretary of the Stenographers Cadre of IFS (B) with effect from the dates shown against their names in terms of Ministry's O.M. No. Q/CAD/584/9/2009 dated 1st July, 2010 :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth	Date of Promotion
	Sh./Smt.		
1.	Manju Bala Channan*	03.05.1950	24.05.2010
2.	G. Vidyanidhi	13.04.1963	24.05.2010

*The officer retired on attaining the age of superannuation on 31st May 2010.

2. The above mentioned officers have assumed charge of the post of Senior Principal Private Secretary with effect from the dates indicated against their names.

S. K. VERMA, Under Secy. (PB)

New Delhi, the 30th July 2010

No. 17/PA-II/2010—Consequent upon acceptance of his request for voluntary retirement under Rule 48-A of CSS

Pension Rules, Shri J. S. Jaggi, has retired from Grade I of Indian Foreign Service, Branch (B) in the forenoon of 22nd July, 2010.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy. (FSP)

New Delhi, the 5th August 2010

No. 25/PB-I/2010—On attaining the age of superannuation, Smt. Sudha Rani Aggarwal (DoB: 01.08.1950), an officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B) retired from Government Service in the afternoon of 31st July, 2010.

M. B. VERMA, Admin. Officer (PB-I & III)

No. 24/PB-I/2010—On attaining the age of superannuation, Shri Jagdish Malik (DoB: 08.07.1950), an officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B) retired from Government Service in the afternoon of 31st July, 2010.

M. B. VERMA, Admin. Officer (PB-I & III)

No. 23/PB-I/2010—On attaining the age of superannuation, Shri Shyam Lal Gupta (DoB: 08.07.1950), an officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B) retired from Government Service in the afternoon of 31st July, 2010.

M. B. VERMA, Admin. Officer (PB-I & III)

No. 22/PB-I/2010—On attaining the age of superannuation, Shri K. G. Kaushik (DoB: 15.07.1950), an officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B) retired from Government Service in the afternoon of 31st July, 2010.

M. B. VERMA, Admin. Officer (PB-I & III)

OFFICE OF THE DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL

New Delhi, the 18th August 2010

No. D-III/460/CF-21/2010—The President is pleased to recognise the appointment of Mr. Lin Chung Ying as Consul General of Republic of Singapore in Mumbai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Lin Chung Ying comprises the States of Maharashtra, Gujarat, Goa, Madhya Pradesh, Orissa and Chhattisgarh.

DINESH BHATIA, Dir. &
Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 19th August 2010

No. A-22011/2/2008-Admn.II—In pursuance of O.M. No. 32014/1/2009-CAS dated 23.07.2010 of Department of Expenditure (CAS), the President is pleased to continue the ad hoc appointment of the following Section Officers w.e.f. 30.06.2010 upto 31.12.2010 or the regular incumbents become available, whichever is earlier, in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs :—

Sl. No. Name of Officers

- | Sl. No. | Name of Officers |
|---------|---------------------|
| | S/Shri/Smt. |
| 1. | Rita Sachdeva |
| 2. | Y. Y. Parate |
| 3. | Swaran Rudra |
| 4. | Sadhna Sharma |
| 5. | Neelam Sibal |
| 6. | Dayal Kumari Kalra |
| 7. | Sanjay Kumar Jha |
| 8. | Sarita Gulati |
| 9. | Bhaskar Chakrabarti |
| 10. | Bhola Nath Saini |
| 11. | Manoj Manu |
| 12. | J. L. Jain |
| 13. | Neera Budhiraja |
| 14. | Ashok Kumar |
| 15. | K. L. Meena |
| 16. | Ramesh Prasad |
| 17. | Magandeep |
| 18. | E. Kujur |
| 19. | Satinder Jit Kaur |
| 20. | Sikha Das |
| 21. | Sunil Kumar Mandi |

2. The ad hoc appointment of Smt. Manju Mathur is continued upto 12.07.2010 (FN) i.e. the date from which she had retired voluntarily.

3. The ad hoc appointments of the above Assistants as Section Officers will be subject to the following terms and conditions :—

- c. Ad hoc appointments, being a stop-gap arrangement, shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's Grade.

d. Ad hoc arrangements will continue till regular candidates in the Section Officer grade are available either through Seniority Quota/Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) or until further orders. In the event of the ad hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistant Grade on availability of such regular Officers, from the date they (regular Section Officer) join duty in their respective cadre allotted to them by DoPT.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

The 23rd August 2010

No. A.19011/19/2010-Admn.II—The President is pleased to appoint Dr. Thomas Mathew, IAS (KL:83), as Joint Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, with effect from the forenoon of 23rd August 2010 for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 25th August 2010

No. A.32014/1/2008-Ad.I(Pt.)—The President is pleased to appoint Shri Girish Kumar Gavane, Stenographer Grade 'C' (officiating as Steno Grade 'A&B' (merged) (ad hoc) of Central Secretariat Stenographers' Service to the post of Steno. Grade 'A&B' (merged) (designated as Private Secretary) in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800+5,400/- (Grade Pay) on the basis of his promotion on inclusion in the Select List Year 2006 with effect from the afternoon of 30th July, 2010.

S. KRISHNAMOORTHY, Under Secy.

DEPARTMENT OF DISINVESTMENT

New Delhi-110003, the 25th August 2010

No. 9/7/2007-Admn.—Shri Khem Singh, Under Secretary in the Department of Disinvestment will retire from the service of the Government of India on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31st August, 2010.

ASHISH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi, the 20th August 2010

No. A-11011/2/2010-Ad.I—In terms of Ministry of Finance, Department of Expenditure's I.D. No. 802203/RI/

EC I/10 dated 17.08.2010, the President is pleased to create the following six permanent posts in the Ministry of Corporate Affairs with effect from the date incumbents takes over the charge of the posts.

Sl. No. the Post	Pay Band+Grade Pay	No. of Posts
1. Director	PB-4 of Rs. 37,400— 67,000+Rs. 8,700/- (Grade Pay)	01
2. Deputy Secretary	PB-3 of Rs. 15,600— 39,100+Rs. 7,600/- (Grade Pay)	02
3. Personal Assistant	PB-2 of Rs. 9,300— 34,800+Rs. 4,600/- (Grade Pay)	03

V. K. KAPOOR, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

[DEPARTMENT OF COMMERCE (SUPPLY DIVISION)]

New Delhi, the 19th August 2010

No. A-32013/1/2010-Cadre—In pursuance to DoP&T's Office Order No. 4/2/2010-CS.I (D), dated August 6, 2010 and consequent upon his inclusion in the Select List of Selection Grade for the year 2010 (part), vide DoP&T's O.M. No. 4/3/2010-CS.I (D), dated August 3, 2010, the President is pleased to appoint Shri W. N. Massey, as Deputy Secretary of CSS on regular basis with effect from the forenoon of August 13, 2010.

2. The above promotion is subject to final orders of Hon'ble CAT in OA No. 1864/2009, presently pending before the Hon'ble CAT, Kolkata in the matter relating to Ms. Garima Singh Vs UoI & Ors.

SANJOY SHANKAR, Under Secy.

MINISTRY OF STEEL

New Delhi-110107, the 2nd August 2010

No. 11(43)/2009-Estt.—On attaining the age of superannuation Shri Yash Pal Puri an officer of CSS cadre and working as Section Officer in the Ministry of Steel has retired on 31.07.2010 (A/N).

G. VAIDHEESWARAN, Under Secy.

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

New Delhi, the 23rd August 2010

No. A-18011/113/2010-Estt.—Shri Amarendra Sinha, IAS (UK:1981) assumed charge of the post of Joint Secretary in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises for a period of five years with effect from the forenoon of 23rd August, 2010 or until further orders, whichever is earlier.

P. P. MURALIDHARAN, Dy. Secy.

No. A-18011/70/2005-Estt.—Consequent upon his selection as Development Commissioner, SEZ Dahej, Ahmedabad (Gujarat), Shri Pravir Kumar, IAS (UP:1982) relinquished charge of the post of Joint Secretary in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises in the forenoon of 23rd August, 2010.

P. P. MURALIDHARAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 16th August 2010

No. A-12015/2/2009-Estt.—In pursuance of DoP&T's O.M. No. 5/13/2009-CS.II (A) dated 1st June, 2010, the President is pleased to appoint Smt. Vijay Narang, a regular Steno. Grade 'C' and officiating as Steno. Grade 'A&B' (Merged) on ad hoc basis in the Ministry of Defence as Steno. Grade 'A&B' (Merged) (Select List Year 2007) in the Revised Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- (PB-2)+Grade Pay of Rs. 4,800/- on regular basis in the Department of Consumer Affairs w.e.f. the forenoon of 16th August, 2010.

PREMA BHATT, Under Secy.

DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

New Delhi, the 23rd August 2010

No. A-32013/1/2006-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Edward Toppo, PS of CSSS to the post of Principal Private Secretary of CSSS on ad hoc basis in the Department of Food & Public Distribution w.e.f. 30.07.2010 (A/N) in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/-.

2. The promotion of Shri Edward Toppo to the grade of PPS is purely on ad hoc basis and shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the grade of PPS.

ARUN KUMAR SINGH, Under Secy.

**MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)**

New Delhi-110016, the 30th July 2010

No. A-19014/01/90-Admn.I(A)—Consequent upon his absorption in International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials (ARCI), Hyderabad as Associate Director (Scientist 'G') w.e.f. 11.05.2010, Dr. G. Padmanabham, Scientist 'G' in the Department of Science & Technology is deemed to have retired from Government Service w.e.f. 10.05.2010 (AN) in terms of Rule 37 of the CCS (Pension) Rules, 1972 as amended from time to time. He is entitled to receive retirement benefits for the service rendered under the Central Government in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

LATHA GOPAKUMAR, Under Secy.

No. A.19013/05/92-Admn.I(A)—The President is pleased to retire Shri Chander Parkash, Scientist 'F' in the Department of Science & Technology from Government Service on attaining the age of superannuation on 31st July, 2010 (AN).

LATHA GOPAKUMAR, Under Secy.

The 19th August 2010

No. A-01/18/2010-Admn.I(A)—The President is pleased to appoint the following Scientists in the Department of Science & Technology in a substantive capacity in their respective post of Scientist 'C' & 'D' with effect from the dates shown against their names below :—

Sl. No.	Name	Date of Confirmation
1.	Dr. Gopi Krishna Konga, Scientist 'C'	03.03.2009
2.	Dr. (Ms.) Vandana Singh, Scientist 'C'	10.10.2009
3.	Dr. (Mrs.) Pratishtha T. Pandey, Scientist 'D'	23.10.2009
4.	Dr. Arvind Kumar, Scientist 'D'	12.12.2009

LATHA GOPAKUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 25th August 2010

No. A-12025/50/2007-CHS.IV—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Prem Choudhary to the post of Specialist Grade-II (Medicine) in the Non-Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service on probation w.e.f. the forenoon of the 30th October, 2009, until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 30th August 2010

No. A-12018/1/2007-DFQC—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Balaji Narsinga Prasad Pulijala S/o Late Shri Pulijala Somaiah, to the post of Deputy Drugs Controller (India), Dte. GHS on direct recruitment basis in the revised pay structure PB-3, Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/- (Group 'A' Gazetted) plus admissible allowances in a temporary capacity with effect from the forenoon of 11th August, 2010 and until further orders.

2. Shri Balaji Narsinga Prasad Pulijala will be on probation for a period of one year.

SUDHIR KUMAR, Under Secy.

DIRECTORATE OF GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 19th July 2010

No. A-11011/14/2007-PH(CDL)/PH—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Sh. Sukhpal Singh, Administrative Officer, NCDC, Delhi to the post of Assistant Director (Administration) National Centre for Disease Control (Dte. G.H.S.) with effect from 19th February 2010 on regular basis.

D. K. SENGUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 30th August 2010

No. 29/8/2001-PP.II(Vol.II)—The President is pleased to give additional charge of the post of Secretary (Central Insecticides Board & Registration Committee) to Dr. S. K. Khurana, Consultant (Supertime grade of Non-Teaching Specialist of CHS) in the Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage with effect from 28th July, 2010 until further orders.

JYOTI SINGHAL, Under Secy.

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH & EDUCATION

New Delhi, the 24th August 2010

No. A-19013/37/2010-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Rajesh Ranjan, IDAS 1996 to the post of Director in the Pay Band-4 (Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/-) in the Department of Agricultural Research & Education, Ministry of Agriculture with effect from the forenoon of 10th August 2010, on deputation basis, for a period of five years or until further orders, whichever is earlier, under Central Staffing Scheme.

VIJAY SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 27th July 2010

No. 5-7/2010-Admn.—Consequent upon inclusion of their names in the Select List (Seniority Quota) of 2007 vide DoPT's OM No. 6/2/2010-CS.I(S) dated 19th May, 2010, the President is pleased to appoint the following Section Officers (Ad hoc) of Central Secretariat Service to the Section Officer's Grade of CSS on regular basis with effect from 1st July, 2007 :—

1. Shri J. S. Duggal
2. Smt. Urmil Punj
3. Shri J. S. Minhas

2. The above appointments are subject to outcome of Court Case No. 13245-60/2005 filed by Kailash Chander

V/s UoI pending in High Court, Delhi, Case No. OA No. 1083/2007 & MA No. 1171/2007 filed by Shri Sauranshu Sinha V/s UoI pending in CAT, Delhi, CWP No. 13352/2005 in the High Court of Delhi OA No. 3294/2009 in CAT, Delhi and OA No. 2674/2009 in CAT, Delhi.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

The 30th July 2010

No. 4-26/2006-Admn.—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Shri Narain Das, Section Officer in the Ministry of Women and Child Development shall stand retired from Government Service with effect from 31.07.2010 (afternoon).

NAVEEN YADAV, Under Secy.

No. 4-26/2009-Admn.—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Shri K. K. Sharma, Deputy Secretary in the Ministry of Women and Child Development shall stand retired from Government Service with effect from 31.07.2010 (afternoon).

NAVEEN YADAV, Under Secy.

No. 4-212/87-Admn.—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Shri Azizuddin, Section Officer in the Ministry of Women and Child Development shall stand retired from Government Service with effect from 31.07.2010 (afternoon).

NAVEEN YADAV, Under Secy.

The 16th August 2010

No. 5-8/2007-Admn.—Consequent upon nomination for appointment to Steno Grade 'A&B' (merged) and her inclusion in the Select List 2007 of CSSS vide DoPT's OM No. 5/13/2009-CS.II(A) dated 1st June, 2010, the President is pleased to appoint Smt. Usha Rani Sethi as Steno Grade 'A&B' (merged) in the Ministry of Women and Child Development with effect from the forenoon of 15th July, 2010.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

New Delhi-110003, the 23rd August 2010

No. A-22012/1/2006-Estt.—In pursuance of Secretariat of the Appointments Committee of the Cabinet, Ministry of Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training's OM No. 22/4/2010-EO (SM.I) dated 12th August 2010, the President is pleased to appoint Shri B. P. Sharma, IAS (BH.81) and Principal Secretary, Department of Finance, Government of Bihar as Joint Secretary in the

Ministry of Minority Affairs in the Pay Band (PB-4) Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 10,000/- with effect from 23rd August, 2010 (FN) for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

GOPAL DASS, Dy. Secy.

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 30th July 2010

No. A-12025/1/2010-E-I—Consequent upon inclusion of his name in the Senior Selection Grade Select List of CSS for year 2010 for promotion as Director and his posting as Director in the Ministry of Road Transport & Highways, vide Department of Personnel & Training's Office Order No. 3/4/2010-CS-I (D) dated 26.7.2010, the President is pleased to appoint Shri S. S. Gulia, presently working as Deputy Secretary (Selection Grade of CSS) in the Ministry of Road Transport & Highways as Director on regular basis in the same Ministry in Pay Band-4, Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 8,700/- Grade Pay, w.e.f. 26.7.2010 (A.N.).

H. R. MEENA, Under Secy.

The 6th August 2010

No. A-38013/2/2010-E.I(B)—Smt. Vishva Ailawadi, an officer of Central Secretariat Stenographers Service and working as Private Secretary in the Ministry of Road Transport & Highways has retired on superannuation w.e.f. 31.07.2010 (AN).

H. R. MEENA, Under Secy.

The 9th August 2010

No. A-38013/1/2010-E.I(B)—Shri A. K. Mehta, an officer of Central Secretariat Stenographers Service and working as Private Secretary in the Ministry of Road Transport & Highways has retired on superannuation w.e.f. 31.07.2010 (AN).

H. R. MEENA, Under Secy.

No. A-12022/2/2010-E-I—In pursuance of Secretariat of the Appointments Committee of the Cabinet, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel & Training's Order No. 1/10/2010-EO(SM-I) dated 23.7.2010, the President is pleased to appoint Shri Raminder Singh Gujral, IAS (HY:76) as Secretary, Ministry of Road Transport & Highways w.e.f. 31.7.2010 (A.N.).

H. R. MEENA, Under Secy.

The 17th August 2010

No. A-12033/1/2010-E-I—In pursuance of Secretariat of the Appointments Committee of the Cabinet, Ministry of

Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel & Training's Order No. 1/7/2010-EO(SM-I) dated 15.7.2010, the President is pleased to appoint Shri Nitin Ramesh Gokarn, IAS (UP:90) as Joint Secretary in the Ministry of Road Transport & Highways in Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 10,000/- for the balance period of his Central deputation tenure of five years i.e. upto 3.6.2013 w.e.f. 22.7.2010 (F.N.) or until further orders, whichever event takes place earlier.

H. R. MEENA, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 17th August 2010

No. A-22017/1/2007-Admn.I—The President is pleased to appoint Shri Mahmood Ahmed, IP&TA&FS (1993) as Director in the Ministry of Urban Development w.e.f. 13.08.2010 (AN) for a period upto 16.06.2012 (i.e. within combined tenure of seven years permissible on deputation) or until further orders, whichever event takes place earlier.

JITENDER KUMAR, Under Secy. (Admn.)

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 17th August 2010

No. A-32014/01/2010-Adm.I—The President is pleased to appoint the following Assistants of CSS Cadre of the Ministry of Labour & Employment to the Grade of Section Officer (Group "B"/Gazetted) (Pay Band-2: Rs. 9,300—34,800/-, Grade Pay of Rs. 4,800/-) on ad hoc basis in this Ministry for the period upto 31.12.2010, in pursuant to DoP&T's O.M. No. 6/6/2009-CS.I(S), dated 07.06.2010 :—

Sl. No.	Name of the Officer	Select List Year of Assistant Grade	Date of appointment as Section Officer (Ad hoc)
1	2	3	4
1.	Shri I. D. Sharma	1993	01.07.2010
2.	Smt. Prem Chopra	1993	01.07.2010
3.	Shri R. K. Trehan (SC)	1993	01.07.2010
4.	Shri Naresh Kumar	1994	01.07.2010
5.	Smt. Rita Singh	1994	01.07.2010
6.	Shri Om Prakash (SC)	1994	01.07.2010
7.	Shri Sheesh Ram (SC)	1994	01.07.2010
8.	Shri Arun Kumar Sharma	1994	01.07.2010
9.	Shri V. C. Tripathi	1995	01.07.2010
10.	Smt. Saroj Bala Bhatia	1995	01.07.2010
11.	Shri Anil Kumar Sharma	1995	01.07.2010

1	2	3	4
12.	Shri Vinod Kumar (SC)	1995	01.07.2010
13.	Shri Yogendra V. Randive (ST)	1995	01.07.2010
14.	Shri Jamna Dass (SC)	1995	05.08.2010
15.	Mohd. Kamil	1996	02.08.2010

2. The appointment of the above named Assistants to the post of Section Officer on ad hoc basis is subject to the following conditions :—

- The period of ad hoc promotion would be upto 31.12.2010 or till the regular Section Officers are made available or until further orders, whichever is earlier;
- The ad hoc appointment shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers grade of CSS;

- Ad hoc appointment would continue till regular candidates in Section Officer Grade are available either through Seniority Quota and/or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they shall be reverted to the Assistants' Grade on availability of such regular officers from the date they (regular Section Officers) join duty in their respective cadre units allotted to them by the DoP&T.

PRADEEP GAUR, Under Secy.

The 23rd August 2010

No. A-22011/01/2009-Adm.I—The President is pleased to appoint Shri Ravi Mathur, IAS (RJ:79) as Additional Secretary in the Ministry of Labour & Employment in the Scale HAG+Rs. 75,500—80,000/- with effect from the forenoon of 23rd August, 2010 and until further orders.

PRADEEP GAUR, Under Secy.